



RAMA STEEL TUBES LTD.

Manufacturers & Exporters : ERW Steel Tubes (Black & Galvanised)

CIN : L27201DL1974PLC007114 | AN ISO 9001 : 2015 CO.

Regd. Office: B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096

+ (91)-(11)-43446600

info@ramasteel.com

www.ramasteel.com

Date: May 31, 2022

To

The Manager – Listing
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai – 400 051
Symbol: RAMASTEEL

The Secretary
BSE Limited,
Corporate Relationship Dept.,
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001.
Scrip Code: 539309

Sub: Newspaper publication of Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2022

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copy of Newspaper Publication of Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2022 in Financial Express (English newspaper); Jansatta (Hindi newspaper) and Economic Times (English Newspaper) dated May 31, 2022.

Kindly place the same on your record.

Thanking you,

For **Rama Steel Tubes Limited**



(Kapil Datta)

Company Secretary & Compliance Officer

Email: investors@ramasteel.com



Encl.: As Above.

● TWO YEARS SINCE LAUNCH AND 30 MILLION DOWNLOADS LATER

Oppn leaders, India Inc still giving Koo a miss

Homegrown platform lacks vibrancy of Twitter

KIRAN RATHEE
New Delhi, May 30


HOMEGROWN MICRO-BLOGGING PLATFORM Koo may have had some 30 million downloads in the last two years since its launch and offering services in nine regional languages, but it lacks the vibrancy of Twitter when it comes to debates on current affairs. The

platform, which came to light a year ago when the Union government was locked in a tiff with Twitter over new intermediary guidelines, does boast of a host of central ministers and government departments as its members, but the Opposition parties are conspicuous by their absence. Even prominent India Inc personalities are not present on this homegrown platform.

Prominent Opposition leaders like Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Priyanka Gandhi Vadra, among others, who are quite active on Twitter, have no presence on Koo. Similarly, corporate bigwigs like

Anand Mahindra and Harsh Goenka, who routinely share updates on Twitter, are missing on the local platform. Even civil society activists who have differing views with the government are missing.

As per information shared by Koo, it has over 7,000 eminent accounts, including those of national and regional parties across the political spectrum, Union ministers, chief ministers, various government departments, Union ministries, chief electoral officers, Opposition leaders and various public sector undertakings like Delhi Metro Rail Corporation



(DMRC). In fact, 50% of the elected representatives from a state like Uttar Pradesh are on Koo, the company said.

The platform said its multilingual outlook has enabled eminent personalities and government representatives to reach out to users from across the country, including those in remote locations, establish a connection and share updates on a real-time basis in the local languages. According to it, the platform's language-first and India-first approach has made government representatives share updates exclusively on Koo. For instance, recently,

communications minister Ashwini Vaishnaw used Koo first to inform about the successful 5G trials at IIT Madras.

On its part, Koo defends its positioning. The company says that its target audience is quite different from Twitter as it is targeted at the non-english speaking population who reside in smaller towns and cities. The core proposition of multilingual expression carries a lot of significance in a multilingual country like India where over 90% of the population speaks a native language, the company says. Moreover, India as a market will soon

have 900 million internet users, a vast majority of who would include speakers of native languages, thereby presenting a huge untapped opportunity for Koo, the company maintains.

The company says that it has enabled self-verification of users, thus fixing accountability. "The move promotes responsible user behaviour, since verified accounts are likely to be more careful about what they post. Moreover, by promoting authenticity and restricting anonymity, it can enhance trust and safety on the platform," Koo said.

A boost for Covid-hit children: From ₹10 lakh to health cover

ANONNA DUTT
New Delhi, May 30

MARKING EIGHT YEARS of the NDA Government, Prime Minister Narendra Modi on Monday launched a series of welfare measures for children who lost their parents or guardians to Covid, including financial assistance of ₹10 lakh, a dedicated helpline and health cover of ₹5 lakh through Ayushman cards.

Announcing these measures under the PM CARES for children initiative, Modi said the beneficiaries will also be eligible to avail loans for higher education and professional courses. In a video address to announce the initiative, Modi also said that the Government's eight years has led to "incredible" self-belief among people, and pulled the country out of a "vicious cycle" of corruption, nepotism, terrorism and regionalism. He went on to list flagship schemes "dedicated to the welfare of the poor", such as Swachh Bharat, Jandhan, Ujjwala and Har Ghar Jal.

"Our countrymen have given their hard-earned money to PM CARES — some have donated their entire life's sav-



Prime Minister Narendra Modi at the online release of benefits under PM CARES on Monday

ings, some have donated what they saved up for their dreams. This fund helped us in preparing the hospitals, buying ventilators, setting up oxygen plants during the Corona period. Many lives could be saved because of this; the future of many families could be saved. And, for those who left us in an untimely manner, today this fund will be used for their children, for the future of all of you," Modi said.

The Covid initiative for children will be open to those who lost both their parents, only surviving parent, legal guardian or adoptive parents to Covid between March 11, 2020 and February 28, 2022.

According to officials, the Rs 10 lakh assistance will be in the form of an investment with the returns given to beneficiaries in

form of a monthly stipend between the ages of 18 and 23, and the entire amount handed over when they attain the age of 23. The Prime Ministers said that the beneficiaries will also receive an annual scholarship of ₹20,000 for school students and monthly financial support of ₹4,000 for daily needs.

To avail the benefits, the names of affected children need to be registered on the portal pmcaresforchildren.in — it will also act as a single-window system for approvals. Data available on the portal show that 9,042 applications have been received under the programme with 4,345 of them already approved.

According to data compiled by the Ministry of Women and Child Development, the num-

ber of children affected due to Covid in India is 1,53,827. This data, however, is not restricted to "Covid orphans" alone.

"I am satisfied that for uninterrupted education of the children, their admissions have already been done in government or private schools near their homes. The expenses of copy books and uniforms of such children will also be borne through PM CARES," Modi said.

"Amidst all these efforts, we realise that at times children may also need emotional support and mental guidance. A special 'Samvad' service has also been started for this. On the 'Samvad Helpline', children can consult, discuss with experts on psychological matters," he said.

Speaking about providing support via the Ayushman card, the Prime Minister urged the children to take up various activities to stay healthy. "Life should be about health, not treatment. Today Fit India and Khelo India campaigns are going on in the country for children. You should join, lead all these campaigns. There is also Yoga Day in a few days. Along with your studies, yoga should also be a part of your life," he said.

Modi government's popularity at highest since start of pandemic

BIBHUDATTA PRADHAN
May 30

APPROVAL RATINGS of Prime Minister Narendra Modi's government have risen to the highest since the start of the pandemic though there's lingering concerns over the surging prices of essential items and unemployment, the latest survey showed on Monday.


Modi's government has met or exceeded expectations in the second term, according to 67% of 64,000 people polled by LocalCircles. That's a jump from 51% last year when a brutal second wave of Covid-19 infections overwhelmed hospitals and crematoriums and 62% in 2020 when the pandemic started.

The people surveyed said the government was better prepared to handle the third wave and had effectively managed the economy. Yet there were concerns over unemployment staying around 7% since the start of the year with 47% of those polled saying India hasn't been able to address the issue.


However, there's also been an

MODI WAVE

Modi rises in popularity in last 12 months despite inflation, unemployment (Approval rating in %)



Source: Local Circles/Bloomberg



increase in confidence in the government's handling of joblessness with 37% showing approval. That's a rise from 27% in 2021 and 29% in 2020 where there were drastic lock-

downs that saw migrant workers lose their jobs in cities though a rural jobs guarantee program helped. The growing approval comes as the retail inflation is tracking an eight-

year high, a politically sensitive issue that has seen a series of measures to restrict exports of wheat and sugar and rein in any further price increases.

— BLOOMBERG

आई आई एफ सी एल
I I F C L

INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
5th FLOOR, NBCC TOWER, EAST KIDWAI NAGAR, NEW DELHI - 110023
CIN No. U67190DL2006GOI144520
Website: www.iifcl.in, E-mail: info@iifcl.in, Phone: +91-11-24662777

Extract of Consolidated Financial Results for the Year ended 31st March 2022

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from operations	98,635.66	62,120.50	477,670.31	440,420.43
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	4,179.60	(42,663.17)	73,722.09	35,525.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,179.60	(42,663.17)	73,722.09	35,525.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19,139.75	(8,957.90)	65,921.49	32,501.56
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	19,206.44	(8,896.54)	65,975.58	32,540.18
6	Paid up Equity Share Capital	999,991.62	999,991.62	999,991.62	999,991.62
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	119,789.60	(2,677.82)	119,789.60	(2,677.82)
8	Net Worth	1,119,781.22	997,313.80	1,119,781.22	997,313.80
9	Debt Equity Ratio	4.65	5.35	4.65	5.35
10	Weighted Average Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)* -				
	1. Basic (Rs.):	0.19	(0.09)	0.66	0.33
	2. Diluted (Rs.):	0.19	(0.09)	0.66	0.33
11	Debt Redemption Reserve	99,995.05	99,995.05	99,995.05	99,995.05

* Not Annualised for Quarter ended EPS

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial results are available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and on www.iifcl.in.

b) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (BSE and NSE) and can be accessed on www.bseindia.com and www.nseindia.com.

c) The above results have been reviewed by the Audit Committee at their Meeting held on 30th May 2022 and approved by the Board of Directors of the company at their Meeting held on 30th May 2022. The results for the quarterly/year ended 31st March 2022 are audited by the Statutory Auditors of IIFCL.

d) Figures of the previous periods have been regrouped/rearranged where ever necessary, in order to make them comparable.

For and behalf of Board of Directors
Sd/-
PR Jaishankar
(Managing Director)
DIN No.: 6711526

Place : New Delhi
Dated : 30.05.2022

RAMA STEEL TUBES LTD.
CIN : L27201DL1974PLC007114
Regd. Office : B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096
+91-(11)-43446600 | investors@ramasteel.com | www.ramasteel.com

Extracts of the Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022

(In ₹ Lakhs except EPS)

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31-Mar-22 (Audited)	31-Dec-21 (Unaudited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-22 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)
1	Total income from operations	25,097.34	18,785.61	14,367.70	77,737.31	47,657.51
2	Net Profit/(Loss) before Tax (Before Exceptional and Extraordinary Items)	1,038.27	807.55	983.38	3,594.60	1,470.65
3	Net Profit/(Loss) before Tax (After Exceptional and Extraordinary Items)	1,038.27	807.55	983.38	3,594.60	1,470.65
4	Net Profit/(Loss) after Tax (After Exceptional and Extraordinary Items)	740.05	560.41	783.21	2,731.51	1,237.81
5	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) after Tax and other comprehensive income after Tax)	742.16	601.00	781.33	2,755.27	1,211.64
6	Equity Share Capital	839.70	839.70	839.70	839.70	839.70
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	11,826.07	9,154.75
8	Earning per Share (in ₹)					
	Basic	4.42	3.58	4.65	16.41	7.21
	Diluted	4.42	3.58	4.65	16.41	7.21

Notes:

- These consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind- AS) as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment thereafter.
- The above consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 30, 2022. Audit under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the statutory auditors of the company. The auditors have expressed an unqualified report on the above results.
- Standalone Results as on March 31, 2022 are as under:-

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31-Mar-22 (Audited)	31-Dec-21 (Unaudited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-22 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)
1	Net Sales / Income From Operations	19,554.25	11,482.84	10,431.28	51,731.75	32,571.00
2	Other Income	152.45	100.05	94.88	428.56	312.63
3	Profit before Tax	535.72	259.72	272.71	1,452.78	678.29
4	Profit after Tax	337.66	196.03	205.39	1,051.83	537.82
5	Total Comprehensive Income after Tax	330.06	197.76	212.57	1,049.43	544.37

- The Group has made an assessment of the impact of the continuing Covid-19 pandemic on its current and future operations. liquidity position and cash flow giving due consideration to the internal and external factors. The Group is continuously monitoring the situation and does not foresee any significant impact on its operations and the financial position as at March 31, 2022.
- The Board of Director at their meeting held on February 14, 2022 has considered and approved a draft scheme of amalgamation ('scheme') under sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013, of Lepakshi Tubes Private Limited (Company's Wholly Owned Subsidiary) with the company. The scheme is subject to receipt of approvals from the shareholders and creditors of the respective Companies as may be directed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi bench ("NCLT") and approval of other regulatory or statutory authorities as may be required.
- Figures for the previous periods / year have been regrouped/recast wherever necessary, to confirm to the current period's classification.
- The figures for the quarters ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are the balancing figures between audited figures in respect to full financial years and the published unaudited year to date figures upto the year end of the third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review.
- The Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022 are available on the website of the Company (www.ramasteel.com) and on Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

BUILD WITH TRUST

Date: May 30, 2022
Place: Delhi

For Rama Steel Tubes Limited
Sd/-
Naresh Kumar Bansal
Managing Director
DIN : 00119213

जिंदल फोटो लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 19वां के.एम. हाइवे-बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावती, जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) - 203408
 प्रधान कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर नंबर-1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070
 फोन : 011-40322100, सीआईएन : L33209UP2004PLC095076, ई-मेल : cs_jphoto@jindalgroup.com, वेबसाइट : www.jindalphoto.com

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु पृथक्कृत और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण				
(रु. लाख में विषय इंधीएस)				
पृथक्कृत		समेकित		
तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त	
31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.21
लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
2	12	18	38	1
(134)	(119)	(551)	(483)	2
(134)	(119)	(551)	(483)	3
(94)	(145)	(408)	(442)	4
(385)	375	(702)	78	5
1026	1026	1026	1026	6
(0.93)	(1.41)	(3.98)	(4.31)	7

नोट्स :
 1. उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे तथा निदेशक मंडल द्वारा 30 मई, 2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित किए गए थे।
 2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अध्याय) विनियम 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सक्षिप्त विवरण है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.jindalphoto.com) पर भी उपलब्ध है।

आनंद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: हाउस नं. 304, आजाद पुरा ललितापुर-284403 उत्तर प्रदेश
 वेबसाइट: www.anandprojects.com, फोन नं.: 0120-2511389,
 सीआईएन: L40109UP1936PLC048200

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वार्षिक के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

रु. लाख में, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर							
क्र. सं.	विवरण	रट्टेडअलोन			समेकित		
		31.03.2022 को समाप्त तिमाही	तदनुसार 31.03.2021 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वार्षिक	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	तदनुसार 31.03.2021 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वार्षिक
		अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	संचालन से कुल आय	467.81	864.94	467.81	467.81	467.81	
2	कर पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाभ	(6,159.90)	437.56	(6,014.08)	(6,158.91)	436.57	
3	कर परभाव की अवधि के लिए शुद्ध लाभ	(6,094.68)	350.13	(6,021.72)	(6,093.69)	349.14	
4	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं]	(6,093.00)	350.72	(6,020.04)	(6,092.01)	349.73	
5	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹ 10/- का अंकित मूल्य)	93.43	93.43	93.43	93.43	93.43	
6	अन्य इक्विटी/अन्य रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसे कि पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाया गया है	-	-	3,427.45	-	3,427.45	
7	प्रति शेयर आय (₹ 10/- प्रत्येक) (वार्षिक नहीं)	(652.33)	37.48	(644.52)	(652.23)	37.37	
	बेसिक:	(652.33)	37.48	(644.52)	(652.23)	37.37	
	डायल्यूटेड	(652.33)	37.48	(644.52)	(652.23)	37.37	

*कंपनी के पास उपरोक्त अवधि के लिए रिपोर्ट करने के लिए कोई असाधारण और प्रतिविशेष मद नहीं है।
 टिप्पणियाँ :
 1. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.anandprojects.com पर उपलब्ध है। (ईमेल आईडी - companysecretary@anandprojects.com)।
 2. परिणाम कंपोनेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") के अनुपालन में तैयार किए जाते हैं।
 3. जहाँ भी आवश्यक हो, आंकड़ों को फिर से समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
 4. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 30 मार्च, 2022 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षा द्वारा "सौमिह्य समीक्षा" के अधीन किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से कृते आनंद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 हस्ता./-
 राजेश कुमार शर्मा
 पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ
 डीआईएन- 09386877

स्थान : नोएडा
 दिनांक : 30 मई, 2022

लूट का आरोपी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

गोंड, 30 मई (जनसत्ता)।

जिले के इटियाथोक थाने की पुलिस और स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने सोमवार तड़के एक मुठभेड़ में दो दिन पूर्व एक सरफा व्यापारी के साथ हुए लूट का खुलासा करते हुए 25 हजार रुपए के इनामी व हिस्ट्रीशीटर पारसनाथ को लूटे गए जेवर, नगदी और अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। बदमाश को पैर में गोली लगी है। उसे उपचार के लिए

स्थानीय चिकित्सालय ले जाया गया है।

पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कंधरा तेजी गांव निवासी शेष नारायण सोनी जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरौरा भरापुर में सरफा की दुकान बंद करने के बाद बेटे दीपू के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में नरौरा भरापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और तमंचे से

धमकाकर 70 हजार रुपए नकद व करीब 11 लाख रुपए के जेवर से भरा बैग लेकर फरार हो गए। व्यापारी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ स्थानीय थाने पर अभियोग दर्ज कराया था। एसपी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए उन्होंने इटियाथोक थाने की पुलिस व एसओजी को जिम्मेदारी सौंपी थी। सोमवार को तड़के क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से एक बदमाश पारसनाथ घायल हो गया।

Dhani Services Limited

(Formerly known as Indiabulls Ventures Limited)
 Extract of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2022 (₹ in Crores)

Sr No.	Particulars	Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended
		31.03.22 (refer note 3)	31.03.22 (Audited)	31.03.21 (Audited)	31.03.21 (refer note 3)
1.	Total income from operations (net)	305.46	1,434.44	1,311.02	239.43
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(231.58)	(900.85)	(208.71)	(191.05)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(231.58)	(900.85)	(208.71)	(191.05)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(244.39)	(860.37)	(229.77)	(164.30)
5.	Total comprehensive income for the year	(236.64)	(855.24)	(226.74)	(163.08)
6.	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 2/- per Equity Share)		121.19	114.54	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per Audited Balance Sheet		4,941.99	5,067.75	
8.	Earnings per Share (EPS) (Face Value of ₹ 2/- per Equity Share) *(EPS for the quarters not annualised)				
	-Basic (Amount in ₹)	(4.20)*	(15.30)	(4.16)	(2.97)*
	-Diluted (Amount in ₹)	(4.20)*	(15.30)	(4.16)	(2.97)*

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website (<http://www.dhani.com>) and on the website of BSE (<http://www.bseindia.com>) and NSE (<http://www.nseindia.com>).

Notes to the Financial Results:

1. The above results have been reviewed by the audit committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 30 May 2022.

2. Key Standalone Financial Information:

Particulars	Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended
	31.03.22 (refer note 3)	31.03.22 (Audited)	31.03.21 (Audited)	31.03.21 (refer note 3)
Total Income	13.40	46.86	35.39	14.40
Profit / (Loss) before Tax	(13.84)	(17.72)	(7.84)	(1.49)
Profit / (Loss) for the year	(13.49)	(24.71)	(16.75)	(4.48)

3. The figures for the quarter ended 31 March 2022 and 31 March 2021 represent balancing figures between the audited figures for the full financial year and published reviewed year to the date figures upto third quarter of the respective financial years.

Registered Office: 1/1 E, First Floor, East Patel Nagar, New Delhi - 110 008.

CIN: L74110DL1995PLC069631

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai

Date : 30 May 2022

Divyesh B. Shah

Whole-time Director & COO



RAMA STEEL TUBES LTD.

CIN : L27201DL1974PLC007114

Regd. Office : B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096

+91-(11)-43446600 investors@ramasteel.com www.ramasteel.com



Extracts of the Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31-Mar-22 (Audited)	31-Dec-21 (Unaudited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-22 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)
		1	Total income from operations	25,097.34	18,785.61	14,367.70
2	Net Profit/(Loss) before Tax (Before Exceptional and Extraordinary Items)	1,038.27	807.55	983.38	3,594.60	1,470.65
3	Net Profit/(Loss) before Tax (After Exceptional and Extraordinary Items)	1,038.27	807.55	983.38	3,594.60	1,470.65
4	Net Profit/(Loss) after Tax (After Exceptional and Extraordinary Items)	740.05	560.41	783.21	2,731.51	1,237.81
5	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) after Tax and other comprehensive income after Tax)	742.16	601.00	781.33	2,755.27	1,211.64
6	Equity Share Capital	839.70	839.70	839.70	839.70	839.70
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	11,826.07	9,154.75
8	Earning per Share (in ₹)					
	Basic	4.42	3.58	4.65	16.41	7.21
	Diluted	4.42	3.58	4.65	16.41	7.21

Notes:

1. These consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind- AS) as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment thereafter.
 2. The above consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 30, 2022. Audit under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the statutory auditors of the company. The auditors have expressed an unqualified report on the above results.
 3. Standalone Results as on March 31, 2022 are as under:-

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31-Mar-22 (Audited)	31-Dec-21 (Unaudited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-22 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)
1	Net Sales / Income From Operations	19,554.25	11,482.84	10,431.28	51,731.75	32,571.00
2	Other Income	152.45	100.05	94.88	428.56	312.63
3	Profit before Tax	535.72	259.72	272.71	1,452.78	678.29
4	Profit after Tax	337.66	196.03	205.39	1,051.83	537.82
5	Total Comprehensive Income after Tax	330.06	197.76	212.57	1,049.43	544.37

4. The Group has made an assessment of the impact of the continuing Covid-19 pandemic on its current and future operations, liquidity position and cash flow giving due consideration to the internal and external factors. The Group is continuously monitoring the situation and does not foresee any significant impact on its operations and the financial position as at March 31, 2022.

5. The Board of Director at their meeting held on February 14, 2022 has considered and approved a draft scheme of amalgamation ('scheme') under sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013, of Lepakshi Tubes Private Limited (Company's Wholly Owned Subsidiary) with the company. The scheme is subject to receipt of approvals from the shareholders and creditors of the respective Companies as may be directed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi bench ("NCLT") and approval of other regulatory or statutory authorities as may be required.

6. Figures for the previous periods / year have been regrouped/recast wherever necessary, to confirm to the current period's classification.

7. The figures for the quarters ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are the balancing figures between audited figures in respect to full financial years and the published unaudited year to date figures upto the year end of the third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review.

8. The Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022 are available on the website of the Company (www.ramasteel.com) and on Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

Date: May 30, 2022
 Place: Delhi

For Rama Steel Tubes Limited
 Sd/-
 Naresh Kumar Bansal
 Managing Director
 DIN : 00119213

BUILD WITH TRUST



आजादी का अमृत महोत्सव

आई आई एफ सी एल
I I F C L

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
 5वां तल, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किंगडॉम नगर, नई दिल्ली - 110023
 सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520
 वेबसाइट: www.iifcl.in, ई-मेल: info@iifcl.in, दूरभाष +91-11-24662777

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय परिणामों की घोषणा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	त्रैमासिक		वार्षिक वित्तीय	
		31.03.2022 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अनंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	31.03.2021 (अंकेक्षित)
1	कुल आय संचलन	98,635.66	62,120.50	477,670.31	440,420.43
2	शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले असाधारण या असाधारण सामग्री)	4,179.60	(42,663.17)	73,722.09	35,525.50
3	शुद्ध लाभ / (हानि) के लिए कर से पहले की अवधि (असाधारण या असाधारण सामग्री)	4,179.60	(42,663.17)	73,722.09	35,525.50
4	शुद्ध लाभ / (हानि) के लिए कर के बाद की अवधि और बाद के (असाधारण या असाधारण सामग्री)	19,139.75	(8,957.90)	65,921.49	32,501.56
5	कुल व्यापक आय अवधि के लिए (सम्मिलित लाभ / (हानि) अवधि (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय के (बाद कर))	19,206.44	(8,896.54)	65,975.58	32,540.18
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	999,991.62	999,991.62	999,991.62	999,991.62
7	रिजर्व (छोड़कर पुनर्मुल्यांकन रिजर्व)	119,789.60	(2,677.82)	119,789.60	(2,677.82)
8	कुल मूल्य	1,119,781.22	997,313.80	1,119,781.22	997,313.80
9	ऋण इक्विटी अनुपात	4.65	5.35	4.65	5.35
10	भारत और अन्य प्रति शेयर (₹. 10/-प्रत्येक) (जारी रखने के लिए और रुका हुआ संचालन)				
	1. मूल (₹.):	0.19	(0.09)	0.66	0.33
	2. पतला (₹.):	0.19	(0.09)	0.66	0.33
11	डिविडेंड रिटर्न/संचलन संरक्षित	99,995.05	99,995.05	99,995.05	99,995.05

* समाप्त तिमाही इंधीएस के लिए वार्षिकीकृत नहीं
 नोट :
 क) सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम www.bseindia.com और www.iifcl.in पर उपलब्ध है।
 ख) सेबी (लिस्टिंग) के विनियम 52 (4) के उप-खंड (ए), (बी), (डी) और (ई) में संदर्भित मांगों के लिए और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015, प्रासंगिक प्रकटीकरण निम्नलिखित के लिए किए गए हैं: स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई और एनएसई) और www.bseindia.com और www.nseindia.com पर पहुंचा जा सकता है।
 ग) उपरोक्त परिणामों की समीक्षा 30 मई 2022 को आयोजित बैठक में लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 30 मई 2022 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित की गई है। 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही/वर्ष के परिणाम हैं आईआईएफसीएल के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित।
 घ) पिछली अवधियों के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
 हस्ता./-
 पी आर जयशंकर
 (प्रबंध निदेशक)
 डीआईएन सं. 6711526

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 30.05.2022

STOVE KRAFT LIMITED

Corporate Office: #81, Harohalli Industrial Area, Kanakapura Taluk, Ramnagara District - 562112.
Ph. : 080 28016222 | Email: cs@stovekraft.com
Website: www.stovekraft.com
CIN No. : L29301KA1999PLCO25387



in Rs. Mn. except EPS

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31st March 2022 Unaudited	31st March 2021 Unaudited	31st March 2022 Audited	31st March 2021 Audited
1	Revenue from Operations	2,613.32	2,354.41	11,363.59	8,589.57
2	EBITDA*	155.18	252.15	948.39	1,137.47
3	Profit Before Tax	69.02	192.09	625.40	811.84
4	Profit After Tax for the period	86.46	192.09	562.15	811.84
5	Total Comprehensive Income for the period	88.21	202.10	560.49	835.13
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	328.68	325.90	328.68	325.90
7	Earnings per Share** Basic (in Rs.) (Face value of Rs. 10 each)	2.63	6.06	17.21	26.61
8	Earnings per Share** Diluted (in Rs.) (Face value of Rs. 10 each)	2.59	5.98	16.96	26.25

* Excludes Other Income and Other Gains and Losses **EPS is not annualized for the quarter ended March 31, 2022 and quarter ended March 31, 2021

Key Balance Sheet Information

Particulars	As on	
	31st March 2022 Audited	31st March 2021 Audited
1 Total Equity	3,640.10	3,026.82
2 Net Debt	620.89	150.59

Notes :

- The statement of unaudited financial results for the quarter ended 31st March, 2022 and the audited financial results for the year ended 31st March, 2022 were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30th May, 2022. The above financial statements have been audited by the Statutory Auditors of the Company.
- The Financial Statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("IndAS") prescribed by section 133 of the Companies Act 2013 and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
- The figures for the quarter ended March 31, 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year upto March 31, 2022 and the unaudited published year-to-date figures upto December 31, 2021, being the date of the end of third quarter of the financial year, which were subject to limited review by the statutory auditors.
- The above is an extract of the detailed format of audited financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results are available on the Stock Exchange websites www.seindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.stovekraft.com

For & On Behalf of the Board
Rajendra Gandhi
Managing Director

Date : 30/05/2022
Place : Bengaluru



SLEEK OUTSIDE, TOUGH INSIDE
3 Burner Cooktop



Follow us on:



RAMA STEEL TUBES LTD.

CIN : L27201DL1974PLCO07114

Regd. Office : B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096

+91-(11)-43446600 • investors@ramasteel.com • www.ramasteel.com



Extracts of the Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022

(In ₹ Lakhs except EPS)

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31-Mar-22 (Audited)	31-Dec-21 (Unaudited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-22 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)
1	Total income from operations	25,097.34	18,785.61	14,367.70	77,737.31	47,657.51
2	Net Profit/(Loss) before Tax (Before Exceptional and Extraordinary Items)	1,038.27	807.55	983.38	3,594.60	1,470.65
3	Net Profit/(Loss) before Tax (After Exceptional and Extraordinary Items)	1,038.27	807.55	983.38	3,594.60	1,470.65
4	Net Profit/(Loss) after Tax (After Exceptional and Extraordinary Items)	740.05	560.41	783.21	2,731.51	1,237.81
5	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) after Tax and other comprehensive income after Tax)	742.16	601.00	781.33	2,755.27	1,211.64
6	Equity Share Capital	839.70	839.70	839.70	839.70	839.70
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	11,826.07	9,154.75
8	Earning per Share (in ₹)					
	Basic	4.42	3.58	4.65	16.41	7.21
	Diluted	4.42	3.58	4.65	16.41	7.21

Notes:

- These consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind- AS) as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment thereafter.
- The above consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 30, 2022. Audit under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the statutory auditors of the company. The auditors have expressed an unqualified report on the above results.
- Standalone Results as on March 31, 2022 are as under:-

(In ₹ Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31-Mar-22 (Audited)	31-Dec-21 (Unaudited)	31-Mar-21 (Audited)	31-Mar-22 (Audited)	31-Mar-21 (Audited)
1	Net Sales / Income From Operations	19,554.25	11,482.84	10,431.28	51,731.75	32,571.00
2	Other Income	152.45	100.05	94.88	428.56	312.63
3	Profit before Tax	535.72	259.72	272.71	1,452.78	678.29
4	Profit after Tax	337.66	196.03	205.39	1,051.83	537.82
5	Total Comprehensive Income after Tax	330.06	197.76	212.57	1,049.43	544.37

- The Group has made an assessment of the impact of the continuing Covid-19 pandemic on its current and future operations, liquidity position and cash flow giving due consideration to the internal and external factors. The Group is continuously monitoring the situation and does not foresee any significant impact on its operations and the financial position as at March 31, 2022.
- The Board of Director at their meeting held on February 14, 2022 has considered and approved a draft scheme of amalgamation ('scheme') under sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013, of Lepakshi Tubes Private Limited (Company's Wholly Owned Subsidiary) with the company. The scheme is subject to receipt of approvals from the shareholders and creditors of the respective Companies as may be directed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi bench ("NCLT") and approval of other regulatory or statutory authorities as may be required.
- Figures for the previous periods / year have been regrouped/recast wherever necessary, to confirm to the current period's classification.
- The figures for the quarters ended March 31, 2022 and March 31, 2021 are the balancing figures between audited figures in respect to full financial years and the published unaudited year to date figures upto the year end of the third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review.
- The Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022 are available on the website of the Company (www.ramasteel.com) and on Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

Date: May 30, 2022
Place: Delhi

For Rama Steel Tubes Limited
Sd/-
Naresh Kumar Bansal
Managing Director
DIN : 00119213

BUILD WITH TRUST



NEW MOVE. NEW BEGINNING.



CAMPUS

WHAT'S YOUR MOVE?

Campus Activewear Limited

(formerly known as Campus Activewear Private Limited) CIN: U74120DL2008PLC183629

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2022

(All amounts are in INR millions except per share data or as otherwise stated)

S. No.	Particulars	For the quarter ended 31 March 2022	For the quarter ended 31 December 2021	For the quarter ended 31 March 2021	For the year ended 31 March 2022	For the year ended 31 March 2021
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	3,526.31	4,340.39	2,755.94	11,965.77	7,150.80
2	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	573.25	748.64	502.70	1,712.82	699.45
3	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	573.25	748.64	502.70	1,712.82	699.45
4	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	396.07	547.18	100.17	1,244.11	268.63
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	398.22	547.92	106.01	1,249.80	278.63
6	Equity Share Capital	1,521.63	1,521.63	1,518.71	1,521.63	1,518.71
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited Balance Sheet of the previous year	2,920.24	2,503.84	1,607.64	2,920.24	1,607.64
8	Earnings Per Share (of Rs. 5 /- each) (for continuing and discontinued operations)*					
	1. Basic:	1.30	1.80	0.33	4.12	0.88
	2. Diluted:	1.30	1.80	0.33	4.12	0.88

*Basic and Diluted EPS is not annualised except for yearly figures.

See accompanying notes to the financial results below.

EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2022

(All amounts are in INR millions except per share data or as otherwise stated)

S. No.	Particulars	For the quarter ended 31 March 2022	For the quarter ended 31 December 2021	For the quarter ended 31 March 2021	For the year ended 31 March 2022	For the year ended 31 March 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total income from operations	3,926.98	4,638.44	3,095.72	13,170.40	7,881.22
2	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	264.67	321.65	257.52	642.07	124.49
3	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	264.67	321.65	257.52	642.07	124.49
4	Net profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	160.81	235.27	(86.66)	433.53	(165.03)
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	162.59	236.08	(83.95)	438.31	(158.80)
6	Equity Share Capital	1,521.63	1,521.63	1,518.71	1,521.63	1,518.71
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited Balance Sheet of the previous year	1,663.19	1,482.33	1,169.45	1,663.19	1,169.45
8	Earnings Per Share (of Rs. 5 /- each) (for continuing and discontinued operations)*					
	1. Basic:	0.53	0.77	(0.29)	1.43	(0.54)
	2. Diluted:	0.53	0.77	(0.29)	1.43	(0.54)

*Basic and Diluted EPS is not annualised except for yearly figures.

See accompanying notes to the financial results below.

Notes:

- The above is an extract of the detailed Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) www.nseindia.com (NSE) and www.bseindia.com (BSE) and the Company www.campusactivewear.com.
- The financial results of Campus Activewear Limited (formerly known as Campus Activewear Private Limited) ("the Company") are published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ("Listing Regulations") have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 30 May 2022. These financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. Audit under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors of the Company. The auditors have expressed an unmodified report on the Annual Financial Results of the company.
- The Company has completed Initial Public Offer (IPO) through an offer for sale of 47,950,000 Equity Shares of the face value of Rs. 5/- each at an issue price of Rs. 292/- per Equity Share. The Equity Shares of the Company were listed on BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) on 9 May 2022. The total offer expenses incurred till 31 March 2022 are Rs. 168.53 million (inclusive of taxes) which are to be recovered from selling shareholders. The Company had accounted for expenses till 31 March 2022 and recognised receivable from the selling shareholder. Subsequent to year end, entire IPO expenses attributable to the selling shareholders have been recovered from them.
- The Standalone financial results for the corresponding quarter ended 31 March 2021, 31 December 2021 and 31 March 2022 have not been subject to an audit or review by our statutory auditors. However, the management has exercised necessary due diligence to ensure that the Standalone financial results provide a true and fair view of the Company's affairs.
- The figures for the quarter ended 31 March 2021, 31 March 2022 and 31 December 2021 as reported in consolidated financial results are the balancing figures in respect of the financial year ended 31 March 2021 and 31 March 2022 and the audited figures for the nine months period ended 31 December 2021 with the audited figures of nine months ended 31 December 2020, audited figures of nine months ended 31 December 2021 and six months period ended 30 September 2021 respectively. The audit of the special purpose Financial Statements for the six months period ended 30 September 2021 was conducted for the purpose of the Draft Offer Document and audit of the special purpose Financial Statements for the nine months period ended 31 December 2020 and 31 December 2021 was conducted for the purpose of the Offer Document.
- The Board of Directors and shareholders of the Company at their meeting held on 9 November 2021, have approved stock split of one equity share having face value of INR 10 each into two equity shares having face value of INR 5 each. Amount of EPS for year ended 31 March 2021 and the quarter ended 31 March 2021 have been restated accordingly.
- The Group continues to closely monitor the impact of the COVID-19 pandemic on all aspects of its business, including how it has impacted and will impact its customers, employees, vendors and business partners. The management has exercised due care, in concluding on significant accounting judgements and estimates, inter-alia, recoverability of receivables, assessment for impairment of goodwill, investments, intangible assets, inventory, based on the information available to date, both internal and external, while preparing the Group's financial results for the quarter and year ended 31 March 2022.
- Based on guiding principles given in IND AS 108 "Operating Segments", the Company's business activity falls within a single operating segment namely "Footwear and its related products", hence the disclosure requirements relating to "Operating Segments" as per IND AS 108 are not applicable.
- Pursuant to amendment by Finance Act, 2021 dated 28 March 2021, goodwill had been held as non-tax deductible asset effective 1 April, 2021. Consequently, the Company had derecognised the deferred tax assets on goodwill as on 31 March 2021 amounting to INR 2471.7 million, thereby impacting profit after tax for the year.
- The Board of Directors of the Company has approved the scheme of merger of Campus AI Private Limited with Campus Activewear Limited and the application has been filed with National Company Law Tribunal (NCLT). Pending approval (which is a substantial condition), the impact of the same has not been taken in these financial results.
- Previous period figures have been re-grouped/re-classified wherever necessary, to conform to current period's classification in order to comply with the requirements of the amended Schedule III to the Companies Act, 2013 effective 1 April 2021.

For and on behalf of the Board of Directors of
Campus Activewear Limited
(formerly known as Campus Activewear Private Limited)
Hari Krishan Agarwal
Chairman & Managing Director
DIN: 00172467

Place: New Delhi
Date: 30 May 2022

D-1, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, New Delhi - 110041, Delhi, India. Telephone: +91 11 4327 2500. Email: investors@campushoes.com